

बीईएमएल को दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन से 645 करोड़ का आदेश प्राप्त

रक्षा सार्वजनिक उपक्रम एवं प्रमुख मेट्रो कार निर्माता स्वरूप बीईएमएल ने डीएमआरसी से उनके आरएस-13 परियोजना (रोलिंग स्टॉक) के लिए 74 ब्रॉड गैज मेट्रो कारों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण एवं कमीशनिंग के लिए 645 करोड़ रुपए मूल्यवाले महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त किया।

इस संबंध में बेंगलूर में आज श्री एच एस आनंद, निदेशक (रोलिंग स्टॉक), दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने मेट्रो कोचों की आपूर्ति के लिए बीईएमएल साथ ठेका अनुबंध में हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर श्री एस एस जोशी, कार्यकारी निदेशक (आरएस), श्री अमरेन्द्र कुमार, मुख्य विद्युत इंजीनीयर, डीएमआरसी, श्री पी द्वारकानाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अनिरुद्ध कुमार, निदेशक (रेल & मेट्रो), श्री एस प्रसाद, कार्यकारी निदेशक, श्री बी एल मंजूनाथ, मुख्य महाप्रबंधक, बीईएमएल उपस्थित थे।



श्री एच एस आनंद, निदेशक (रोलिंग स्टॉक), डीएमआरसी उनके आरएस-13 परियोजना के लिए मेट्रो कोचों की आपूर्ति के लिए बीईएमएल साथ ठेका अनुबंध में हस्ताक्षर करते हुए।

साथ में दर्शित हैं श्री पी द्वारकानाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अनिरुद्ध कुमार, निदेशक (रेल & मेट्रो), श्री एस एस जोशी, कार्यकारी निदेशक (आरएस), डीएमआरसी, श्री एस प्रसाद, कार्यकारी निदेशक, बीईएमएल, बेंगलूर कॉम्प्लेक्स।

वर्ष 2002 के दौरान बीईएमएल ने मेट्रो कारों के निर्माण एवं आपूर्ति में अपना कदम रखा है। मेट्रो रोलिंग स्टॉक में विश्वसनीय मेक इन इंडिया भागीदार होकर बीईएमएल द्वारा दिल्ली मेट्रो को अबतक 600 से अधिक मेट्रो कारों की आपूर्ति की गई है। बीईएमएल ने पहले से ही अपने प्रथम चरण में बेंगलूर मेट्रो के लिए 150 मेट्रो कारों की आपूर्ति की है। जयपुर मेट्रो परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक

आपूर्तिकर्ता के रूप में बीईएमएल ने 40 कारों की आपूर्ति की है, जिसके लिए हाल ही में राजस्व के संचालन शुरू हुई है। इस के साथ, मेट्रो खंड में उभरते अवसरों का लाभ उठाते हुए बीईएमएल देश में वरीय मेट्रो कोच निर्माता के रूप में उभर आ रहा है।

बेंगलूर

तारीख : 10-06-2015